

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 362]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20, 1977/श्रावण 29, 1899

No 362]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20, 1977/SRAVANA 29, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th August 1977

S.O. 624(E) / E(C) O, 1977/AM(13) —In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely —

1. This order may be called the Exports (Control) Thirteenth Amendment Order, 1977.
2. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, the following item shall be added after item No. 10.
"10A. Eggs".
3. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3 after item No. 4 the following shall be added —

(1)	(2)	(3)	(4)
4A.	Eggs	B-10A	Exports allowed subject to a minimum export price of Rs 40/- (forty) per hundred numbers f.o.b.

[No. F. 23/5/77-EI].

K. V SESHADRI,
Chief Controller of Imports and Exports

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

(कापीराइट कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1977

का०मा० 622(अ).--कापीराइट अधिनियम 1957 (1957 का 14वां) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य (विधि कार्य विभाग) मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार श्री च० रामकृष्ण राव को श्री बी० एम० सेखों के स्थान पर कापीराइट बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है। श्री च० रामकृष्ण राव बोर्ड के शेष कार्य काल, जो 23 सितम्बर, 1980 को समाप्त हो रहा है अथवा जिस तिथि तक वह विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में अपने वर्तमान पद पर रहे, इन में से जो भी तिथि पहले हो, उस तिथि तक इस पद पर रहेंगे।

[सं० एफ० 4-11/76-सी०ओ०]

डी० एन० मिश्र,

संयुक्त शिक्षा सलाहकार।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977